

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 –पेपर-II में बैठने के लिए पेपर-I के परिणाम की घोषणा।

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2019 का आयोजन दिनांक 26.11.2019 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा में कुल 12,359 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।

2. आयोग द्वारा पेपर- I में निर्धारित कट ऑफ को लागू करने के बाद, 1977 अभ्यर्थियों ने पेपर- II में बैठने के लिए उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। उपलब्ध अभ्यर्थियों एवं कट-ऑफ अंकों का श्रेणी-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.पि.व.	अना.	अ.दि.	श्र.दि.	दृ.दि.	अन्य शा.दि.	कुल
कट-ऑफ अंक	105.25	94.00	114.00	104.75	128.75	110.25	53.25	102.50	40.75	-
उपलब्ध अभ्यर्थी	389	179	738	283	302	25	30	15	16	1977

**नोट 1:** उपर्युक्त दर्शाए गए अनारक्षित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, अना. मानकों में अर्हता प्राप्त करने वाले 71-अ.जा., 15-अ.ज.जा., 307-अ.पि.व., 98-आ.पि.व., 4-अ.दि., 5-श्र.दि. और 2-दृ.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में ही दर्शाया गया है।

**नोट 2:** क्षेत्रीय श्रेणी के अभ्यर्थियों (यानी अ.दि., श्र.दि., दृ.दि. और अन्य शा.दि.) को उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (जैसे- अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अना. और आ.पि.व.) में शामिल नहीं किया गया है।

3. अभ्यर्थियों की श्रेणी को उनके रोल नंबर के साथ इंगित किया गया है। यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने नाम, रोल नंबर और श्रेणी में मेल नहीं पाता है, तो उसे तत्काल इस बात को आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के संज्ञान में लाना चाहिए।

4. उत्तर कुंजियों के बारे में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और अंतिम उत्तर कुंजियों, जिनके आधार पर अंतिम मूल्यांकन किया गया है, को तैयार करते समय उपयुक्त रूप से इनका समाधान किया गया है।

5. उपरोक्त परीक्षा का वर्णनात्मक पेपर (पेपर- II) दिनांक 16.02.2020 को आयोजित किया जाना है। अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के परीक्षा के शहर की स्थिति और प्रवेश-पत्र को पेपर-II परीक्षा के आयोजन से पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, जो अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ रहते हैं, वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र समय पर डाउनलोड करने का दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का है।

6. अर्हता प्राप्त/अनर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अंक और प्रश्न-पत्र (त्रों) के साथ-साथ मानक प्रारूप में अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही दर्शाया जाएगा।

अवर सचिव (गो.-1/1)

29.01.2020